



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12—फरवरी 18, 2011 (माघ 23, 1932)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12—FEBRUARY 18, 2011 (MAGHA 23, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. ओ.दो.-6286/11-कार्मिक(डी.ए.-5)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र
दिनांक 21.12.2010 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री वी. पिन्जारकर,
सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-6286) ने दिनांक 16.01.2011
(अपराह) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस
बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 16.01.2011 (अपराह)
से निकाले जाते हैं।

आर. एन. मिश्रा

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 01 फरवरी 2011

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-334--इस कार्यालय के श्री जय शंकर झा,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड

वेतन रु. 5,400/-) वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप
31.01.2011 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उनकी जन्म तिथि 18.01.1951 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ
की तिथि 19.05.1975 है।

ह./- अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. डब्ल्यू.एम.-1/क्यू-55(जी)/खण्ड-II/2302-05--प्रधान
महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत
निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ
प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/-
एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ
प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में 01.02.2011 या प्रभार ग्रहण करने के
दिनांक के प्रभाव से, जो बाद में लागू हो, वर्तमान डिविजन में अगले

आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

1. जयन्त कुमार चक्रवर्ती

2. श्यामल कुमार मुखर्जी

उपरोक्त अधिकारियों को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अन्दर एफ. आर.-22(I)(क) (1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

जे. आर. विश्वास
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

सं. डब्ल्यू.एम.-1/क्यू-73(जी)/खण्ड-IV/2306-2309--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) परिश्चम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में 01.02.2011 या प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से, जो बाद में लागू हो, वर्तमान डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

1. शैलेन्द्र कुमार पाल

2. समसुद्दिन हालदार

उपरोक्त अधिकारियों को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अन्दर एफ. आर.-22(I)(क) (1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

जे. आर. विश्वास
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, ओडिशा

पुरी, दिनांक 14 जनवरी 2011

सं. डब्ल्यू.एम.-47-2-डीए/डिए-1608-14--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री शशि भूषण रथ मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-I को वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी (वर्ग-ख राजपत्रित) पद पर जिस का वेतन संरचना (वेतन बैंड-3) (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) पर दिनांक 01.01.2011 से एवं उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अगले आदेशों तक, सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (लेखा निर्माण)

सं. डब्ल्यू.एम.-47-2-डीए/डिए-1604-12--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री आदर्श कुमार मोहाराणा, मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-II को मंडल लेखा अधिकारी-I (वर्ग-ख राजपत्रित) पद पर जिस का वेतन संरचना (वेतन बैंड-2) (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) पर दिनांक 03.01.2011 (अप.) से एवं उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अगले आदेश तक, सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (लेखा निर्माण)

सं. डब्ल्यू.एम.-47-2-डीए/डिए-1606-13--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री विभूषित पट्टनायक मंडल, लेखा अधिकारी ग्रेड-II को मंडल लेखा अधिकारी-I (वर्ग-ख राजपत्रित) पद पर जिस का वेतन संरचना (वेतन बैंड-2) (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) पर दिनांक 01.01.2011 से एवं उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अगले आदेश तक, पदोन्नति सहर्ष प्रदान करते हैं।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (लेखा निर्माण)

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. सी-09/724-एस.ओ.एस.(ए)(1)--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' भण्डार सहायक को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सहायक भण्डार अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,200/- के वेतन बैंड-2 में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नति किया जाता है:--

1. श्री जी.एस. सेनगुप्ता

29.12.2010

स्वर्ण सुब्बा राव
महासर्वेक्षक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 25 जनवरी 2011

सं. 1/6(4)/2010-पावर/830--राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक

01.07.2010 (पूर्वाह) से अगला आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने उल्लिखित ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड रु.	ग्रेड वेतन (रु.)	इकाई
सर्वश्री						
1.	पी.बी. खरात	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-एफ	वैज्ञानिक अधिकारी-जी	पीबी-4, 37,400-67,000/-	8,700	टीएपीएस 1 एवं 2
2.	ए.के. सक्सेना	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-एफ	वैज्ञानिक अधिकारी-जी	पीबी-4, 37,400-67,000/-	8,700	एनपीसी-आईएल मुख्यालय

2. उपरोक्त अधिकारियों ने दिनांक 01.07.2010 (पूर्वाह) से अपने निचले पदों का कार्यभार त्याग दिया है।

सी.डी. चाक्को
अवर सचिव (पी)

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 25 जनवरी 2011

सं. राराप्रप्रौके/प्रशासन/भ.-807(2)/73--निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर द्वारा श्री ए.के. मुछाल, सहायक लेखापाल को इस केन्द्र में वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 30.11.2010 (पूर्वाह) से 14.01.2011 (अपराह) तक नियुक्त किया।

आर.पी. आचार्य
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(64)/2001-भर्ती/55--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री आर. विश्वनाथम, सहायक लेखाकार को कुमारी सी. शांताकुमारी, सहायक लेखा अधिकारी, निसेसंप्रनि की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर हुई सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पद पर इस निदेशालय में दिनांक 01.02.2010 (पूर्वाह) से 27.12.2010 (अपराह) तक वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- और ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी.एस. मात्यु
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 21 जनवरी 2011

सं. नाईस/काप्रभ.1/04/06/46--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्रीमती बी. ललिता, सहायक को रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन सहित

रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में तदर्थ आधार पर दिनांक 08.01.2011 से 07.03.2011 अथवा भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. जी. राघवन
प्रशासनिक अधिकारी

हैदराबाद-500062, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. एनएफसी/काप्रभ.1/03/01/64--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र हैदराबाद के श्री पी. वी. भरत प्रसाद, वैज्ञानिक अधिकारी/डी को रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड-3 रु. 6,600/- के ग्रेड पे सहित तदर्थ आधार पर दिनांक 21.12.2010 के पूर्वाह से भावी आदेश होने तक वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500629, दिनांक 20 जनवरी 2011

सं. पखनि-4/2/2010-भर्ती/2607--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को आगामी आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वेतन बैंड (पी.बी.-4), वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/- में अस्थाई रूप में वैज्ञानिक अधिकारी-एच के पद पर इसी निदेशालय में निम्नलिखित तिथि और विषय-क्षेत्र में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	कार्य ग्रहण करने की तिथि
सर्वश्री				
1.	सी. एल. भैरम	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
2.	वी. जे. कट्टी	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
3.	जी. बी. जोशी	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
4.	डॉ. के. सत्यनारायण	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
5.	एम. बी. वर्मा	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
6.	के. महेन्द्र कुमार	वै.अ./जी	वै.अ./एच	08.09.2010
7.	आर. के. पुरोहित	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
8.	सय्यद ज़काउल्ला	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
9.	प्रमोद कुमार	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
10.	डॉ. के. के. अचार	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010
11.	डॉ. के. शिव कुमार	वै.अ./जी	वै.अ./एच	23.08.2010

पी. मोहन बाबु
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. ए-20011/24/73-स्थापना-2--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री के. पी. मर्गों, उप महानिदेशक दिनांक 31.01.2011 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

मीना शर्मा

उप निदेशक (प्रशासन)
कृते नागर विमानन महानिदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जनवरी 2011

सं. ए-32013/5/2009-स्थापना-1--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति जी, उप महानिदेशक, नागर विमानन के कार्यालय बंगलुरु में श्री जी. राजशेखर, उप निदेशक (विमान इंजीनियरी निदेशालय) को दिनांक 31.12.2010 (पूर्वाह) से अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर 14,300--400-18,300/- (पूर्व संशोधित) (संशोधित पे बैंड-4, 37,400--67,000/- रु. + 8,700/- रु. ग्रेड वेतन) के वेतनमान में उनकी पदोन्नति होने पर, निदेशक (विमान इंजीनियरी निदेशालय) बंगलुरु के पद पर नियुक्त करते हैं।

विजय सिंह

उप निदेशक प्रशासन

कम्पनी मामले मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ए. आर. एस. बरास्को प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 जुलाई 2010

सं. 560(5)/115512--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए. आर. एस. बरास्को प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आत्मा साह

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. एस. ऑयल एण्ड
जनरल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2010/00149--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. एस. ऑयल एण्ड जनरल मिल्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मार्स सैच्यूरन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

सं. 560(5)/160928--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मार्स सैच्यूरन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स नीतू लीजिंग एण्ड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 13 दिसम्बर 2010

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2010/00137--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नीतू लीजिंग एण्ड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आईकाल कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2010/00099--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आईकाल कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बोकारो-कोडरमा-मैथन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 दिसम्बर 2010

सं. 560(5)/158576--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बोकारो-कोडरमा-मैथन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अनिता इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

सं. 560(5)/014836--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनिता इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रोडमास्टर इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

सं. 560(5)/025485--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोडमास्टर इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सीओटी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

सं. 560(5)/014835--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सीओटी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ओरियन्ट कम्प्यूट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2010/00028--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरियन्ट कम्प्यूट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पेस गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2010/00027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पेस गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कराईसालिस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 जनवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2011/00110--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कराईसालिस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बरजन बलैकेल (इंडिया) लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 05 जनवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2011/00041--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बरजन बलैकेल (इंडिया) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डैडी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जनवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2011/00043--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डैडी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स लाईमऑल वेब सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 10 जनवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2011/000265--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लाईमऑल वेब सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दानी चिट एंड फाईनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 11 जनवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2011/00188--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दानी चिट एंड फाईनेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सेटर्न हॉस्पिटल इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 जनवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2011/00111--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेटर्न हॉस्पिटल इक्यूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एन्जीओटैक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जनवरी 2011

सं. 560(5)/179174--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन्जीओटैक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

अशोक कुमार बहल
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ब्राऊनी लीजिंग एंड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 जनवरी 2011

सं. 560(5)/056335--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्राऊनी लीजिंग एंड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

अशोक कुमार बहल
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हाईकोम सोफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 22 दिसम्बर 2010

सं. 560(5)/105766--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हाईकोम सोफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विजय क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) एमसीए/आरओसी-दिल्ली सीजीओ/धारा 560/2011/00007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विजय क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रोटेट ब्लैक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 27 जनवरी 2011

सं. आर.ओ.सी./54612/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोटेट ब्लैक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रोयल पिन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. आर.ओ.सी./39582/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर

मैसर्स रोयल पिन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुब्रहमन्यम मेटलो प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. आर.ओ.सी./18113/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुब्रहमन्यम मेटलो प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पंचाल एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. आर.ओ.सी./17708/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पंचाल एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जिसम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. आर.ओ.सी./16458/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जिसम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
 सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
 गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./31394/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पदमा अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./1946/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्यू सकुन रोजिन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./1958/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्टेक हाऊस सेविंग यूनिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./30855/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डायमंड रियल्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./31082/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कला मन्दिर कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./6370/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अनील स्टार्च मनेजमेन्ट इम्प्लायर्स वेलफेयर फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./32466/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. पटेल ब्लक केरियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओरियन्ट कार्टून्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 28 जनवरी 2011

सं. आर.ओ.सी./3695/एस.टी.ए./560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओरियन्ट कार्टून्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
पटना, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/ईईएस-10--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कंपनी संख्या	कंपनी का नाम
1.	006531	मैसर्स इजमैक रुथरफोर्ड केबल रिपेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	007582	मैसर्स छोटानागपुर पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	003729	मैसर्स धनबाद एलॉय कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	011788	मैसर्स जीवक फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एण्ड झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
पटना, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(5)/ईईएस/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कंपनी संख्या	कंपनी का नाम
1.	02765	मैसर्स पायस्वीनी सेवासदन प्राईवेट लिमिटेड
2.	06953	मैसर्स सम्म कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

1	2	3
3.	03609	मैसर्स गंगोत्री होम्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	07526	मैसर्स मायागिरी होटल प्राईवेट लिमिटेड
5.	04843	मैसर्स मगध बोन फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	11414	मैसर्स ओमाद कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	01699	मैसर्स गोविन्दा फायनान्स एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
8.	10504	मैसर्स हट एण्ड हिल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
9.	02793	मैसर्स कनवटिया व्हीट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	07075	मैसर्स ल्यो सिक्युरिटी गार्ड एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
11.	02410	मैसर्स एस एम री-रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	08839	मैसर्स अरमान वीजन प्राईवेट लिमिटेड
13.	00856	मैसर्स ठाकुरपुरा बहुमुखी ग्रामोद्योग संघ प्राईवेट लिमिटेड
14.	09985	मैसर्स मनहेटन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	10166	मैसर्स प्लाज़मा मेरीन इजू-सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
16.	09176	मैसर्स बिहार नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
17.	06619	मैसर्स घराना कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	10495	मैसर्स जेन कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
19.	10906	मैसर्स फेमिका बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	12896	मैसर्स पाराडाईज क्लासेज प्राईवेट लिमिटेड
21.	07518	मैसर्स ए के निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
22.	06552	मैसर्स रेसकॉन फायनांशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
23.	03328	मैसर्स प्रान्स केमिकल्स लिमिटेड
24.	05976	मैसर्स महेश प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	12509	मैसर्स एबर्ट लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
26.	08227	मैसर्स अनीस ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	02487	मैसर्स नाथ कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
28.	02261	मैसर्स मनोज इंजिक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	02332	मैसर्स सर्वोत्तम सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	03094	मैसर्स श्री टायर रिट्रेड्स एण्ड रिपेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	10780	मैसर्स जय श्री सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	09435	मैसर्स ज्योटेक हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
33.	12107	मैसर्स समयुग कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	06396	मैसर्स गीतान्जली प्लानटेशन इण्डिया लिमिटेड
35.	02700	मैसर्स हरिनारायण ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	10795	मैसर्स इस्थिवा सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
37.	06659	मैसर्स जमशेदपुर स्टील प्राईवेट लिमिटेड
38.	03087	मैसर्स स्वर्णरेखा गोल्डलाइन फ्लोर एण्ड फीड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
39.	03738	मैसर्स शरणम एजिकान्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	11194	मैसर्स यूनिकेयर एण्ड क्योर फमो इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
41.	08109	मैसर्स अनुभव स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	05901	मैसर्स दक्षायण कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
43.	02857	मैसर्स रुकमीनी वितरक प्राईवेट लिमिटेड
44.	04240	मैसर्स टीडस्पीन रिट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	04646	मैसर्स आश्रय टेक्नोक्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	07251	मैसर्स पारसमनी ज्योति फाइनान्स लिमिटेड
47.	07229	मैसर्स सुन्दरवन एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	11234	मैसर्स समयक मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
49.	06968	मैसर्स सुक्रीत इन्वेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड
50.	10040	मैसर्स सॉफ्टकार्प कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	10509	मैसर्स आनन्द इन्फोवीजन प्राईवेट लिमिटेड
52.	12659	मैसर्स वी के रेज़ीडेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
53.	09485	मैसर्स कोरडस लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
54.	10516	मैसर्स स्पाइजेल मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	06622	मैसर्स आर्या इंजिकान्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	06787	मैसर्स साकम्भरी सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
57.	09386	मैसर्स विनायका परफ्युमरी प्राईवेट लिमिटेड
58.	03464	मैसर्स एन्जैक फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	12763	मैसर्स वासवी सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
60.	06905	मैसर्स पारसमनी प्लानटेशन एण्ड कल्टीवेशन लिमिटेड
61.	12762	मैसर्स राज्यवर्धन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
62.	04952	मैसर्स एवरेस्ट एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	07220	मैसर्स मारुति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	12118	मैसर्स रत्नगर्भा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	12117	मैसर्स रत्नप्रिया मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	13477	मैसर्स हाईटेक मल्टीकॉन प्राईवेट लिमिटेड
67.	12999	मैसर्स अग्रणी इन्वेस्टमेंट कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड
68.	06474	मैसर्स दाताश्री इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स इण्डिया लिमिटेड
69.	02301	मैसर्स श्री बालाजी साल्ट आयाडिजेशन इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
70.	11082	मैसर्स आर्या इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	00666	मैसर्स प्रोग्रेसिव मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
72.	11284	मैसर्स मिलानो कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
73.	04255	मैसर्स एम एस माधव शर्मा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	12602	मैसर्स वेस्ट सर्किल पटना केबल कॉम प्राईवेट लिमिटेड
75.	05473	मैसर्स जीवनाधार इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी लिमिटेड
76.	11193	मैसर्स डोली कल्टीवेशन प्राईवेट लिमिटेड
77.	06160	मैसर्स पॉलीएक्टिव प्लानटेशन एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड
78.	05416	मैसर्स पॉलीएक्टिव इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	12977	मैसर्स लाउरेल डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	01962	मैसर्स सारदा री-रोलिंग मिल नालन्दा प्राईवेट लिमिटेड
81.	05723	मैसर्स श्रवेन इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
82.	06021	मैसर्स याक सेविंग एण्ड लिजिंग इण्डिया लिमिटेड
83.	11289	मैसर्स दिनेश नारायण आडियो एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
84.	04266	मैसर्स उज्जवल कोल प्राईवेट लिमिटेड
85.	10314	मैसर्स किसोरी कंस्ट्रक्शन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
86.	01987	मैसर्स चौधरी ऑटो इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
87.	08145	मैसर्स सन्नी पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
88.	07353	मैसर्स लैपटुन डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
89.	03354	मैसर्स फ्यूजन एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड
90.	03513	मैसर्स यशोदा कोक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
91.	04328	मैसर्स बिहार टैनरी प्राईवेट लिमिटेड
92.	05263	मैसर्स ग्लेरे इण्डिया फाइनान्स लिमिटेड
93.	08098	मैसर्स ग्रीनरी प्लानटेशन्स इण्डिया लिमिटेड
94.	09766	मैसर्स फाउन्डेशन इंश्योरेंस कन्सलटेंसी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
95.	09686	मैसर्स अब्बसुन फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	11258	मैसर्स टुटलेग टेक्नोलॉजिकल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
97.	04287	मैसर्स हाजीपुर कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
98.	13468	मैसर्स मिल्लो सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
99.	09365	मैसर्स प्रसाद कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	08110	मैसर्स विनय एग्रो फोरेस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
101.	12145	मैसर्स न्यू ज्योति बिल्डर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
102.	09713	मैसर्स जयन्ती ओरल केन्सर रिसर्च इंस्टीच्यूट प्राईवेट लिमिटेड
103.	08653	मैसर्स आवास गृह कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	06090	मैसर्स द एक्वी इनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
105.	10650	मैसर्स झारखण्ड रजरप्पा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
106.	08751	मैसर्स जेनिक्स इंजिकॉन प्राईवेट लिमिटेड	137.	06795	मैसर्स रितुराज होम्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	04213	मैसर्स उत्तम होम्स प्राईवेट लिमिटेड	138.	05155	मैसर्स रितुराज प्लांट सर्विसेस लिमिटेड
108.	10003	मैसर्स उरवी होम्स प्राईवेट लिमिटेड	139.	10170	मैसर्स अनिल डेकोरेटर्स एण्ड कैटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	09778	मैसर्स होमियोपैथिक कॉनसेप्ट प्राईवेट लिमिटेड	140.	04538	मैसर्स जनवेस्ट फायनान्स कम्पनी लिमिटेड
110.	09828	मैसर्स आरिजिनल अयूर ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड	141.	02059	मैसर्स युनिक तार एलॉयड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	07083	मैसर्स परमार्थ एग्रो फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड	142.	10351	मैसर्स रेनु एग्रीको कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
112.	12061	मैसर्स मानवी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	143.	06477	मैसर्स सुधा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	04513	मैसर्स ग्रीन पार्क एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	144.	05373	मैसर्स झाबर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	05883	मैसर्स गैम्बीक कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	145.	09579	मैसर्स माँ शाकम्भरी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
115.	11135	मैसर्स आर्यन एग्रो डेयरी फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड	146.	11349	मैसर्स प्रोडाक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	08509	मैसर्स शेकल चैन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	147.	06286	मैसर्स द ग्रेट बिहार फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
117.	00986	मैसर्स करतार आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	148.	10576	मैसर्स बारीरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
118.	09392	मैसर्स बैद्यनाथ गैसप्लांट बोटलिंग प्राईवेट लिमिटेड	149.	01734	मैसर्स बिहार कम्प्यूटर एण्ड कन्सलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
119.	02925	मैसर्स सुरीची रॉलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	150.	08791	मैसर्स गायत्री आर्टिटेक एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	08165	मैसर्स आधार एक्वा एग्रो लिमिटेड	151.	10120	मैसर्स भुवनेश्वरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	13181	मैसर्स अरसेनल कन्जूमर एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	152.	09539	मैसर्स लिनेट हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
122.	09694	मैसर्स सामिन्द बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड	153.	12435	मैसर्स संतोष कुमार चौबे इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
123.	07854	मैसर्स इण्डस इन्टरनेशनल इण्डिया कम्पनी लिमिटेड	154.	09525	मैसर्स कम्प्यूजोन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
124.	09556	मैसर्स राइम्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राईवेट लिमिटेड	155.	06733	मैसर्स सनवे इण्डिया फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	11225	मैसर्स बरुन कुमार सिंह कैरियर प्राईवेट लिमिटेड	156.	08692	मैसर्स अनुराग ग्रेन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	02393	मैसर्स आशियाना लैंड डेवलपमेंट्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	157.	05134	मैसर्स डी जे स्टील प्रोसेसर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	02563	मैसर्स सुरकेम फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	158.	10535	मैसर्स कावेरी एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
128.	08381	मैसर्स आशियाना गृह निर्माण प्राईवेट लिमिटेड	159.	07178	मैसर्स कोबरा इंटेलिजेन्स सिक्युरिटी फोर्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	07107	मैसर्स टायनगर सिमेंट प्राईवेट लिमिटेड	160.	06869	मैसर्स लारवी कॉम्प्युटोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	01816	मैसर्स क्वालिटी फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	161.	08888	मैसर्स सीटो एण्ड प्रीमो केमिकल इण्डस्ट्री लिमिटेड
131.	12133	मैसर्स शंकरम हैल्थ केयर एण्ड रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	162.	09598	मैसर्स पारटेक एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
132.	06234	मैसर्स केजरीवाल इन्फोरमेशन एण्ड कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	163.	08765	मैसर्स माँ जानकी फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	08072	मैसर्स तोहफा फार्मिंग लिमिटेड	164.	01566	मैसर्स पायोनीयर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
134.	04046	मैसर्स करतार आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	165.	01399	मैसर्स आशियाना इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	05570	मैसर्स दरबारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	166.	11329	मैसर्स त्रिप्ती कैरियर गाइडेन्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	03652	मैसर्स आवास कोलोनाइजर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	167.	07221	मैसर्स नवयुग मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
			168.	08800	मैसर्स श्रमिक इंटरप्राइजेज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
			169.	05601	मैसर्स पोदार टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
			170.	09981	मैसर्स ए बी एन इंस्ट्रूमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
			171.	12083	मैसर्स दोराब्बी ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
			172.	05198	मैसर्स द जनवेस्ट प्लानेशन लिमिटेड

1	2	3
173.	10247	मैसर्स यूरेका नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
174.	05327	मैसर्स ज्योति रिट्रीडस प्राईवेट लिमिटेड
175.	01485	मैसर्स गुडग्रीप टूलस प्राईवेट लिमिटेड
176.	10394	मैसर्स भारती एण्ड सन्स कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
177.	07358	मैसर्स विरासत फिल्मस एण्ड टेलिविजन प्राईवेट लिमिटेड
178.	05947	मैसर्स संतुष्टि सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	10481	मैसर्स गोरी मोटर्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
180.	10323	मैसर्स रिलायेबल स्पेयर पार्ट्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
181.	10397	मैसर्स ओम श्री दुर्गा ऑटो सेंटर एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
182.	07689	मैसर्स केसरी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
183.	08937	मैसर्स हेमलता एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
184.	11416	मैसर्स यूटिलिटी सेल्स एण्ड सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
185.	03016	मैसर्स भरटेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
186.	10324	मैसर्स लोमास प्लानटेशन प्राईवेट लिमिटेड
187.	05535	मैसर्स संतुष्टि सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
188.	02436	मैसर्स जनता होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	10348	मैसर्स अन्नपूर्ण सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	06758	मैसर्स विभ्रा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
191.	07011	मैसर्स हताशति फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	05203	मैसर्स एनन लिजिंग एण्ड फायनान्स सर्विसेज लिमिटेड
193.	10628	मैसर्स त्रिप्ती मैकलाईफ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
194.	03509	मैसर्स लोक-आस्था इन्टरप्राइजेज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
195.	10553	मैसर्स गंगोत्री एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
196.	07122	मैसर्स सिद्धार्थ लिजिंग एण्ड फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
197.	10423	मैसर्स अमन ऑटो सेंटर एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
198.	01500	मैसर्स निसांत हाउसिंग डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
199.	08893	मैसर्स समसूजोहा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	010745	मैसर्स मधु गोरे कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
201.	01664	मैसर्स इगनो सेडिमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एण्ड झारखण्ड

जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन संख्या	कंपनी का नाम
1	2	3
1.	2448	मैसर्स ईस्ट इण्डिया सेल्स एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	2636	मैसर्स पिपिलज फायनान्सियर्स एण्ड मनी लैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	3591	मैसर्स सुपर स्प्रति इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
4.	3616	मैसर्स बिल्डर्स च्वाइस प्राईवेट लिमिटेड
5.	3827	मैसर्स लक्ष्मी सिक्युरिटीज़ एण्ड एडवाइज़र्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	4071	मैसर्स मैक्रोन होम अप्लायेंसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	4606	मैसर्स इन्टाक्ट इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड
8.	6882	मैसर्स बिमा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	7597	मैसर्स रोयोमेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	8300	मैसर्स फस्ट च्वाइस कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	8556	मैसर्स हिन्द एग्रो प्लानटेशन एण्ड फार्मस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
12.	8973	मैसर्स ए एन चिट फण्ड्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	9241	मैसर्स कैरली कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	9441	मैसर्स पैसन्ज़ एक्स्प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
15.	9490	मैसर्स बुडबुपरबिल चिट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	9733	मैसर्स गुरुदेव प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	9927	मैसर्स इंप्रेस टेक प्राईवेट लिमिटेड
18.	10210	मैसर्स श्रीपदम बिल्डर्स एण्ड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	10445	मैसर्स बी एण्ड टी फौजन्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	10636	मैसर्स चेस्ट हॉस्पिटलिटिज़ प्राईवेट लिमिटेड
21.	11830	मैसर्स अश्वती इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
22.	11967	मैसर्स ओरबिट एजुकेशनल एण्ड रीसर्च फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
23.	12101	मैसर्स नेक्तर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	12846	मैसर्स दी डिसेन कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	14051	मैसर्स चूरक्काट कुरीज़ प्राईवेट लिमिटेड
26.	14098	मैसर्स सैबरनेटिक इन्फोसिस्टम्स एण्ड ट्रेनिंग प्राईवेट लिमिटेड
27.	14353	मैसर्स शास्ताक्रपा पैक प्राईवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 07 जनवरी 2011

सं. 560(5)/ईईएस/2010/1056/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

1	2	3
28.	14929	मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
29.	15209	मैसर्स तैकाटुशेरी बस कम्पनी लिमिटेड
30.	15325	मैसर्स ब्रदर्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
31.	15910	मैसर्स मनोराज्यम हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
32.	16308	मैसर्स मडतेरिल कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
33.	16313	मैसर्स स्टार सिनी आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	17653	मैसर्स अब्बास काष्यु कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
35.	18695	मैसर्स ट्रीसोन कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
36.	19537	मैसर्स अल-ओलयन कन्सल्टेंसी एण्ड बीपीओ सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
37.	19876	मैसर्स अननेट टीम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
38.	20781	मैसर्स क्लीफोर्ड होलिडेज प्राईवेट लिमिटेड
39.	21335	मैसर्स सेबान इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड

के. जी. जोसफ जेक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स लैण्डमार्क सिविल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 44992/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लैण्डमार्क सिविल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इल्लिड कनैक्टिविटी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 24877/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इल्लिड कनैक्टिविटी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एल एण्ड एम ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 65849/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एल एण्ड एम ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आईसीसी कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 64010/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आईसीसी कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री स्वरनमबीगै इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 69159/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री स्वरनमबीगै इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स गियर ट्रान्समिशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 07548/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गियर ट्रान्समिशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेएम इक्यूपमेंट एण्ड मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 31503/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेएम इक्यूपमेंट एण्ड मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आर. के. एम. सिस्टम कन्ट्रोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00219--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. के. एम. सिस्टम कन्ट्रोल्ल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्रिन्सेस ऑफ हिल्स रिसोर्ट्स (कोडै) लिमिटेड के विषय में
चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00179--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रिन्सेस ऑफ हिल्स रिसोर्ट्स (कोडै) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हांगकांग होरेन टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00161--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स हांगकांग होरेन टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टेस्पा मिनी मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00173--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेस्पा मिनी मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साबको बिल्डिंग मैटेरियल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00158--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साबको बिल्डिंग मैटेरियल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओक्टागन इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00235--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स ओक्यगन इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

पर मैसर्स सुगोई फर्निचर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तमिलनाडु स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नई/धारा 560/2010/00151--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तमिलनाडु स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टेमिनास एप्लीकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नई/धारा 560/2010/00300--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेमिनास एप्लीकेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कृतिका बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नई/धारा 560/2010/00291--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कृतिका बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फो हुवाट् फर्निचर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नई/धारा 560/2010/00297--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फो हुवाट् फर्निचर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुगोई फर्निचर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नई/धारा 560/2010/00294--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस.एम.एस. एक्वा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नई/धारा 560/2010/00303--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स एस.एम.एस. एक्वा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सेलैयूर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00306--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेलैयूर बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सीस्कै लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00309--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सीस्कै लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्रेष्ठा धर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00284--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रेष्ठा धर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम.जी.एम. इण्डिया बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 26454/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम.जी.एम. इण्डिया बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर.एस.जी. इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 18323/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर.एस.जी. इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डिसिशनवान्टेज कन्सल्टिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 68607/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिसिशनवान्टेज कन्सल्टिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम.जी.एम. एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 24 जनवरी 2011

सं. 24320/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम.जी.एम. एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एक्वामरैन मरीटैम सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 25 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00454--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्वामरैन मरीटैम सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ए.डी.सी.एल. ड्रस एण्ड केमिकल लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 25 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00440--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ए.डी.सी.एल. ड्रस एण्ड केमिकल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरुण कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 25 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00520--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अरुण कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अदित्या मैत्री इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 25 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00445--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अदित्या मैत्री इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरिस्ट्यान हॉस्पिटैलिटी
होल्डींग्स एण्ड एडवाईज़री प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई-600006, दिनांक 25 जनवरी 2011

सं. 560(3) का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00480--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आरिस्ट्यान हॉस्पिटैलिटी होल्डींग्स एण्ड एडवाईज़री प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्विपपुंज

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 24th January 2011

No. O. II. 6286/2011-Pers (DA-5)—Consequent on acceptance of his notice for resignation from service dated 21.12.2010, Shri V. Pinjarkar, Assistant Commandant (IRLA : 6286), relinquished the charge of his post on the Afternoon of 16th January, 2011. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 16.01.2011 (AN).

R. N. MISRA
DIG (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT

(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 1st February 2011

No. Admn. I/O.O. No. 334—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Jata Shankar Jha, Senior Audit Officer (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) of this office is reitring from Government Service on 31.01.2011 (A/N).

His date of birth is 18.01.1951 and he joined Government Service on 19.05.1975.

Sd/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 28th January 2011

No. WM-I/Q-55(G)/Vol.II/2302-2305—Under the order of Pr. Accountant General (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Gr.-I are hereby promoted as Sr. Divisional Accounts Officer in the Pay Band-3: Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/- in the temporary and officiating capacity with effect from 01.02.2011 or the date of assumption of charges whichever is later as Sr. D.A.O. in the present Divisions till further orders. They will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service :—

1. Jayanta Kumar Chakraborty
2. Shyamal Kumar Mukherjee

The above named Officers may submit their options under F. R. 22 (I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Sr. Divisional Accounts Officer for fixation of pay on promotion.

J. R. BISWAS
Sr. Dy. Accountant General (A/cs. & VLC)

No. WM-I/Q-73(G)/Vol.IV/2306-2309—Under the orders of Pr. Accountant General (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Gr.-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Gr.-I in the Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,800/- in temporary and officiating capacity with effect from 01.02.2011 or the date of assumption of charges whichever is later as D.A.O. Gr.-I in the present Divisions till further orders. They will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service :—

1. Sailendra Kumar Pal
2. Samsuddin Halder

The above named Officers may submit their options under F. R. 22 (I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Divisional Accounts Officer Gr. I for fixation of pay on promotion.

J. R. BISWAS
Sr. Dy. Accountant General (A/cs. & VLC)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), ORISSA

Puri, the 14th January 2011

No. WM-47-2-DA/DAO-1608—The Principal Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar has been pleased to allow Shri Shashi Bhushan Rath, Divisional Accounts Officer Gr. I to officiate as Senior Divisional Accounts Officer (Group-B Gazetted) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.01.2011 without prejudice to the claims of his seniors until further order.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General
(Works Accounts)

No. WM-47-2-DA/DAO-EO-1604—The Principal Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar has been pleased to allow Shri Adarash Kumar Moharana, Divisional Accounts Officer Gr. II to officiate as Divisional Accounts Officer Grade-I (Group-B Gazetted) in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 03.01.2011 A.N. without prejudice to the claims of his seniors until further order.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General
(Works Accounts)

No. WM-47-2-DA/DAO-EO-1606—The Principal Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar has been pleased to allow Shri Bibhubrata Pattanaik, Divisional

Accounts Officer Gr. II to officiate as Divisional Accounts Officer Gr. I (Group-B Gazetted) in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 01.01.2011 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further order.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General
(Works Accounts)

**SURVEY OF INDIA
(SURVEYOR GENERAL'S OFFICE)**

Dehradun-248001, the 24th January 2011

No. C-09/724-SOS(A)(1)—The undermentioned Group 'C' Stores Assistant is hereby promoted as Assistant Stores Officer (G.C.S. Group 'B' Post) in Survey of India in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/- on regular basis with effect from the date as shown against his name :—

Shri G. S. Sengupta 29.12.2010

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor General of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 25th January 2011

No. 1/6(4)/2010-Power/830—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of this Department who are on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned against each and as detailed below in an officiating capacity w.e.f. 01.07.2010, until further orders :—

S. No.	Name	Present Grade	Promoted to Grade	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	Unit
	(S/Shri)					
1.	P. B. Kharat	Scientific Officer/Engineer-F	Scientific Officer/Engineer-G	PB-4 37,400— 67,000/-	8,900/-	TAPS-1&2
1.	A. K. Saxena	Scientific Officer/Engineer-F	Scientific Officer/Engineer-G	PB-4 37,400— 67,000/-	8,900/-	NPCIL HQ

2. The above Officers relinquished charge of the lower post held by them w.e.f 01.07.2010 (FN).

C. D. CHACKO
Under Secy.

**RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED
TECHNOLOGY**

Indore-452013, the 25th January 2011

No. RRCAT/Admn/R-807(2)/73—Director, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore has appointed Shri A. K. Muchhal, Assistant Accountant to officiate as

Asst. Accounts Officer in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- on ad hoc basis during 30.11.2010 (FN) to 14.01.2011 (AN).

R. P. ACHARYA
Chief Administrative Officer

**DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND
ESTATE MANAGEMENT**

Mumbai-400094, the 24th January 2011

No. DCSEM/A/2(64)/2001/Rectt./55—Director, Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri R. Viswanadham, Assistant Accountant in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,200/- in Directorate of Construction, Services and Estate Management, DAE as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- Plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on ad hoc basis in DCSEM with effect from 01.02.2010 (FN) to 27.12.2010 (AN) vice Kum. C. Santhakumari, Assistant Accounts Officer, DCSEM retired.

G. S. MATHEW
Admn. Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 21st January 2011

No. NFC/PAR-I/04/06/46—Chief Executive, NFC appoints Smt. B. Lalitha, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 08.01.2011 to 07.03.2011 or until further orders, whichever is earlier.

R. G. RAGHAVAN
Admn. Officer

Hyderabad-500062, the 28th January 2011

No. NFC/PAR-I/03/01/64—The President is pleased to appoint Shri P. V. Bharat Prasad as Scientific Officer/D in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in Nuclear Fuel Complex, Hyderabad on ad hoc basis with effect from the forenoon of 21.12.2010 until further orders.

K. P. S. PILLAI
Administrative Officer

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION & RESEARCH**

Hyderabad-500629, the 20th January 2011

No. AMD-4/2/2010-Rectt/2607—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/Engineers

of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, by promotion to the post of Scientific Officer-H carrying the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- + 10,000/- Grade Pay in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the dates shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade	Date of Assumption of Charge
	(S/Shri)			
1.	C. L. Bhairam	SO/G	SO/H	23.08.2010
2.	V. J. Katti	SO/G	SO/H	23.08.2010
3.	G. B. Joshi	SO/G	SO/H	23.08.2010
4.	Dr. K. Satya-narayana	SO/G	SO/H	23.08.2010
5.	M. B. Verma	SO/G	SO/H	23.08.2010
6.	K. Mahendra Kumar	SO/G	SO/H	23.08.2010
7.	R. K. Purohit	SO/G	SO/H	23.08.2010
8.	Syed Zakauulla	SO/G	SO/H	23.08.2010
9.	Pramod Kumar	SO/G	SO/H	23.08.2010
10.	Dr. K. K. Achar	SO/G	SO/H	23.08.2010
11.	Dr. K. Shiva Kumar	SO/G	SO/H	23.08.2010

P. MOHAN BABU
Chief Administrative & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 28th January 2011

No. A-20011/24/73-E.II.—On attaining the age of superannuation, Shri K. P. Maggon, Deputy Director General stands retired from Government Service with effect from 31.01.2011 (Afternoon).

MEENA SHARMA
Dy. Director Admn.

New Delhi-110003, the 19th January 2011

No. A.32013/5/2009-E.I.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. G. Rajasekar, Deputy Director (Aircraft Engineering Directorate) in the office of Deputy Director General of Civil Aviation, Bangalore to the grade of Director (Aircraft Engineering Directorate),

Bangalore on his promotion in the Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/- (pre-revised) (Revised to PB-4 Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- Grade Pay) on regular basis w.e.f. 31.12.2010 (F.N.) until further orders.

VIJAY SINGH
Dy. Director of Admn.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ars Brassco Private Limited

New Delhi-110019, the 31st July 2010

No. 560(5)/115512—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ars Brassco Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. S. Oil and General Mills Private Limited

New Delhi-110019, the 29th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00149—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. S. Oil and General Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VINAY KUMAR GUPTA
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mars Saturn Infrastructure Private Limited

New Delhi-110019, the 27th October 2010

No. 560(5)/160928—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mars Saturn Infrastructure Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neetu Leasing and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 13th December 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00137—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Neetu Leasing
and Finance Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Icall Communications Private Limited

New Delhi-110019, the 16th December 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00099—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Icall
Communications Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bokaro-Kodarma-Maithon Transmission Company
Limited

New Delhi-110019, the 20th December 2010

No. 560(5)/158576—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Bokaro-Kodarma-Maithon
Transmission Company Limited has this day been struck off
the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anita Investment and Trading Company
Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2010

No. 560(5)/014836—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Anita Investment and Trading

Company Private Limited has this day been struck off the
register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Roadmaster Investment Company Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2010

No. 560(5)/025485—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Roadmaster Investment Company
Limited has this day been struck off the register and the
said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seoti Trading and Investment Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 21st December 2010

No. 560(5)/014835—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Seoti Trading and Investment Co.
Private Limited has this day been struck off the register and
the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Orient Computronics Private Limited

New Delhi-110019, the 27th December 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00028—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Orient
Computronics Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pace Garments Private Limited

New Delhi-110019, the 27th December 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00027—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pace Garments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chrysalis International Private Limited

New Delhi-110019, the 4th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00110—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chrysalis International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bergen Blakell (India) Limited

New Delhi-110019, the 5th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00041—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bergen Blakell (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daddy Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 5th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00043—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Daddy Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Limeall Web Services Private Limited

New Delhi-110019, the 10th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00265—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Limeall Web Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daanee Chit and Finance Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 11th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00188—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Daanee Chit and Finance Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saturn Hospital Equipments Private Limited

New Delhi-110019, the 21st January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00111—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Saturn Hospital Equipments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Angiotech India Private Limited

New Delhi-110019, the 6th January 2011

No. 560(5)/179174—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Angiotech India Private Limited has

this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ASHOK KUMAR BEHL
Asstt. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brownly Leasing and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 21st January 2011

No. 560(5)/056335—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brownly Leasing and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ASHOK KUMAR BEHL
Asstt. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hicom Softech Private Limited

New Delhi-110019, the 22nd December 2010

No. 560(5)/105766—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hicom Softech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vijay Creations Private Limited

New Delhi-110019, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00007—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vijay Creations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rotate Black (India) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 27th January 2011

No. 560(5)/54612—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Rotate Black (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Royal Pins Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2011/00143/122920—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Royal Pins Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Subrahmanyam Metlo Processors Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122816/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Subrahmanyam Metlo Processors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Panchal Exports Imports Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122819/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panchal Exports Imports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gisam Construction Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122822/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Gisam Construction Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arni Stock Holdings Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122825/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arni Stock Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Satyesh Stock Holding Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122828/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Satyesh Stock Holding Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sagacious Fibre Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122831/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sagacious Fibre Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Great Eastern Indo-Agro Corpn. Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122834/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Great Eastern Indo-Agro Corpn. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhan Dharak Investments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122837/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhan Dharak Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dipan Agricultural Products Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122840/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dipan Agricultural Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajjada Steels Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122804/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajjada Steels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kaushal Agro Farm Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122807/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Kaushal Agro Farm Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kunjan Chemicals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122810/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kunjan Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marshal Ceramics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122813/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marshal Ceramics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pinpan Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122774/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pinpan Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharj Hydraulics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122777/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Sharj Hydraulics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Handa Synthetics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122780/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Handa Synthetics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unimot Engineers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122783/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unimot Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wee-Vision Advertising Agencies Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122786/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wee-Vision Advertising Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Denis Holdings Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122789/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Denis Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Transtamp Laminators Private Limited
Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122792/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Transtamp Laminators Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhishek Cloth Agencies Private Limited
Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122795/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Abhishek Cloth Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tibshilon Synthetics Private Limited
Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122798/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tibshilon Synthetics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Avani Refoils Private Limited
Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122801/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Avani Refoils Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ultrafine Writings Private Limited
Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122762/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ultrafine Writings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sam Atrish Plastic Private Limited
Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122765/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sam Atrish Plastic Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Directional Drilling (India) Private Limited
Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122768/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Directional Drilling (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jyoti Resorts Private Limited
Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122771/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Jyoti Resorts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Girnar Paper and Board Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122843/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Girnar Paper and Board Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jayant Industrial Oils Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122846/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jayant Industrial Oils Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. GVR Investment Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122849/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. GVR Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Futura Files (India) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122852/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Futura Files (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sthirlaxmi Financial Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122855/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sthirlaxmi Financial Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Shukan Developers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122858/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sai Shukan Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jayshree Multitech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122861/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jayshree Multitech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashapura Ceramics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122891/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Ashapura Ceramics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

that the name of M/s. Diamond Realtor Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padama Apartments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122894/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Padama Apartments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalamandir Construction Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122906/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalamandir Construction Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Shakun Rosin Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122897/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Shakun Rosin Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anil Starch Management Employers Welfare
Foundation Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122909/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anil Starch Management Employers Welfare Foundation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Stock House Saving Units Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122900/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Stock House Saving Units Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. Patel Bulk Carriers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122912/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. Patel Bulk Carriers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Diamond Realtor Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122903/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aavakar Construction Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122915/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Aavakar Construction Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajguru Fincap Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122918/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajguru Fincap Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vortex Athletic Resorts Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122921/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vortex Athletic Resorts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivshakti Informatics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122924/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shivshakti Informatics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mansi Shuttleless Looms Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122927/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Mansi Shuttleless Looms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Galaxy Concepts Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122930/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Galaxy Concepts Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wisdom Immigration Consultant Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122933/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wisdom Immigration Consultant Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Top Gun Security and Investigation Bureau Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122936/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Top Gun Security and Investigation Bureau Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Orient Cartons Private Limited

Ahmedabad-380013, the 28th January 2011

No. RoC/122939/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Orient Cartons Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 31st December 2010

No. ROC/Pat/560(3)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies, Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Reg. No.	Name of the Company
1.	006531	M/s. Ismac Rutherford Cable Repairs Private Limited
2.	007582	M/s. Chhotanagpur Publication Private Limited
3.	003729	M/s. Dhanbad Alloy Casting Private Limited
4.	011788	M/s. Jiwak Pharmaceuticals Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 31st December 2010

No. ROC/Pat/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	002765	M/s. Payasvini Sevasadan Private Limited
2.	006953	M/s. Sums Construction Company Limited
3.	003609	M/s. Gangotri Homes Private Limited
4.	007526	M/s. Mayagiri Hotel Private Limited
5.	004843	M/s. Magadh Bone Fertilizers Private Limited

1	2	3
6.	011414	M/s. Omad Consultants Private Limited
7.	001699	M/s. Govinda Finance & Construction Limited
8.	010504	M/s. Hut and Hill Constructions and Developers Private Limited
9.	002793	M/s. Kanwatia Wheat Products Private Limited
10.	007075	M/s. Leo Security Guard Agency Private Limited
11.	002410	M/s. S. M. Re-Rolling Mills Private Limited
12.	008839	M/s. Arman Vision Private Limited
13.	000856	M/s. Thakurpura Bahumukhi Gramodyog Sangh Private Limited
14.	009985	M/s. Manhattan Builders & Developers Private Limited
15.	010166	M/s. Plasma Marine Edu-Services Private Limited
16.	009176	M/s. Bihar Network Private Limited
17.	006619	M/s. Gharana Constructions Private Limited
18.	010495	M/s. Zen Construction Private Limited
19.	010906	M/s. Famica Builders and Developers Private Limited
20.	012896	M/s. Paradise Classes Private Limited
21.	007518	M/s. AK Nirman Private Limited
22.	006552	M/s. Rescon Financial Services Private Limited
23.	003328	M/s. Prans Chemicals Limited
24.	005976	M/s. Mahesh Projects Private Limited
25.	012509	M/s. Abert Laboratories Private Limited
26.	008227	M/s. Anis Drugs Private Limited
27.	002487	M/s. Nath Construction Private Limited
28.	002261	M/s. Manoj Engicons Private Limited
29.	002332	M/s. Sarvottam Synthetics Private Limited
30.	003094	M/s. Sri Tyre Retreads and Repairs Private Limited
31.	010780	M/s. Jai Shree Seeds Private Limited
32.	009435	M/s. Zeotec Health Care Private Limited
33.	012107	M/s. Samyug Construction & Developers Private Limited
34.	006396	M/s. Geetanjali Plantation (India) Limited

1	2	3	1	2	3
35.	002700	M/s. Harinarayan Automobiles Private Limited	64.	012118	M/s. Ratnagarbha Minerals & Chemicals Private Limited
36.	010795	M/s. Eshitwa Services Private Limited	65.	012117	M/s. Ratnapriya Minerals and Chemicals Private Limited
37.	006659	M/s. Jamshedpur Steel Private Limited	66.	013477	M/s. Hi-Tech Multicon Private Limited
38.	003087	M/s. Swarnarekha (Gold Line) Flour and Feed Mills Private Limited	67.	012999	M/s. Agarani Investment Consultant Private Limited
39.	003738	M/s. Sharnam Engicons Private Limited	68.	006474	M/s. Datasri Investment & Finance India Limited
40.	011194	M/s. Unicare and Cure Pharma (India) Private Limited	69.	002301	M/s. Shree Balaji (Salt Iodisation) Industries Private Limited
41.	008109	M/s. Anubhav Steels Private Limited	70.	011082	M/s. Arya Ingot Private Limited
42.	005901	M/s. Dakshayan Constructions Private Limited	71.	000666	M/s. Progressive Motors Private Limited
43.	002857	M/s. Rukmini Vitrak Private Limited	72.	011284	M/s. Millano Computer Services Private Limited
44.	004240	M/s. Treadspin Retreaders Private Limited	73.	004255	M/s. M. S. Madhav Sharma Constructions Private Limited
45.	004646	M/s. Ashray Technocrats Private Limited	74.	012602	M/s. West Circle Patna Cable Com Private Limited
46.	007251	M/s. Parasmani Jyoti Finance Limited	75.	005473	M/s. Jeevanadhar Investments Company Limited
47.	007229	M/s. Sundarvan Agro Farms Private Limited	76.	011193	M/s. Doli Cultivation Private Limited
48.	011234	M/s. Samyak Medicare Private Limited	77.	006160	M/s. Polyactive Plantation & Developers Limited
49.	006968	M/s. Sukrit Investment (India) Limited	78.	005416	M/s. Polyactive Electrical & Electronics Private Limited
50.	010040	M/s. Anand Infovision Private Limited	79.	012977	M/s. Laurel Dealers Private Limited
51.	010509	M/s. Asthma Cure and Cure Pharmacy Private Limited	80.	001962	M/s. Sharda Re-Rolling Mill (Nalanda) Private Limited
52.	012659	M/s. V. K. Residency Private Limited	81.	005723	M/s. Sharven Enterprises Private Limited
53.	009485	M/s. Cordus Laboratories Private Limited	82.	006021	M/s. Yak Saving & Leasing India Limited
54.	010516	M/s. Spiegel Metals Private Limited	83.	011289	M/s. Dinesh Narayan Audio and Marketing Private Limited
55.	006622	M/s. Arya Engicons Private Limited	84.	004266	M/s. Ujjwal Coal Private Limited
56.	006787	M/s. Shakambhari Securities Private Limited	85.	010314	M/s. Kishori Construction India Private Limited
57.	009386	M/s. Vinaika Perfumery Private Limited	86.	001987	M/s. Choudhary Auto Engineering Private Limited
58.	003464	M/s. Anzac Pharmaceuticals Private Limited	87.	008145	M/s. Sunny Publication Private Limited
59.	012763	M/s. Vasvi Securities Private Limited	88.	007353	M/s. Laptun Diagnostic Private Limited
60.	006905	M/s. Parasmani Plantation & Cultivation Limited			
61.	012762	M/s. Rajyavardhan Trading Private Limited			
62.	004952	M/s. Everest Estates Private Limited			
63.	007220	M/s. Maruti Distributors Private Limited			

1	2	3	1	2	3
89.	003354	M/s. Fusion Alloys Private Limited	116.	008509	M/s. Shackle Chain Industries Private Limited
90.	003513	M/s. Yashoda Coke Industries Private Limited	117.	000986	M/s. Kartar Iron and Steel Company Private Limited
91.	004328	M/s. Bihar Tannery Private Limited	118.	009392	M/s. Baidyanath Gaspoint Bottling Private Limited
92.	005263	M/s. Glare India Finance Limited	119.	002925	M/s. Surichi Roller Flour Mills Private Limited
93.	008098	M/s. Greenery Plantations (India) Limited	120.	008165	M/s. Aadhar Aqua Agro Limited
94.	009766	M/s. Foundartion Insurance Consultancy Service Private Limited	121.	013181	M/s. Arsenal Consumer and Services Private Limited
95.	009686	M/s. Abbsun Pharmaceuticals Private Limited	122.	009694	M/s. Samind Biotech Private Limited
96.	011258	M/s. Tutelage Technological India Private Limited	123.	007854	M/s. Indus International India Company Limited
97.	004287	M/s. Hajipur Construction Private Limited	124.	009556	M/s. Rhymes Distributor Private Limited
98.	013468	M/s. Millow Software Private Limited	125.	011225	M/s. Barun Kumar Singh Carrier Private Limited
99.	009365	M/s. Prasad Consultants Private Limited	126.	002393	M/s. Ashiana Land Developments & Projects Private Limited
100.	008110	M/s. Vinay Agro Forestry Private Limited	127.	002563	M/s. Surchem Pharmaceuticals Private Limited
101.	012145	M/s. Newjyoti Builders Company Private Limited	128.	008381	M/s. Ashiana Grih Nirman Private Limited
102.	009713	M/s. Jayanti Oral Cancer Research Institute Private Limited	129.	007107	M/s. Tata Nagar Cement Private Limited
103.	008653	M/s. Awas Griha Constructions Private Limited	130.	001816	M/s. Quality Fasterners Private Limited
104.	006090	M/s. The Equi-Invest Private Limited	131.	012133	M/s. Shankaram Health Care & Research (India) Private Limited
105.	010650	M/s. Jharkhand Rajrappa Marketing Private Limited	132.	006234	M/s. Kejriwal Information & Computer Systems Private Limited
106.	008751	M/s. Zenix Engicon Private Limited	133.	008072	M/s. Tohfa Farmings Limited
107.	004213	M/s. Uttam Homes Limited	134.	004046	M/s. Parwez Akhtar Constructions Private Limited
108.	010003	M/s. Urwi Homes Private Limited	135.	005570	M/s. Darbari Investments Limited
109.	009778	M/s. Homoeopathic Concept Private Limited	136.	003652	M/s. Awaas Colonisers & Engineers Private Limited
110.	009828	M/s. Original Ayur Drugs Private Limited	137.	006795	M/s. Rituraj Homes Private Limited
111.	007083	M/s. Paramarth Agro Finance & Investment (India) Limited	138.	005155	M/s. Rituraj Plant Servies Limited
112.	012061	M/s. Manvi Sales Private Limited	139.	010170	M/s. Anil Decorators & Caterers Private Limited
113.	004513	M/s. Green Park Estates Private Limited	140.	004538	M/s. Janvest Finance Company Limited
114.	005883	M/s. Gambik Constructions Private Limited			
115.	011135	M/s. Aryan Agro Dairy Farming Private Limited			

1	2	3	1	2	3
141.	002059	M/s. Unique Tar Allied Products Private Limited	167.	007221	M/s. Navyug Metals Private Limited
142.	010351	M/s. Renu Agrico Cold Storage Private Limited	168.	008800	M/s. Shramik Enterprises India Private Limited
143.	006477	M/s. Sudha Developers & Builders Private Limited	169.	005601	M/s. Poddar Technology Private Limited
144.	005373	M/s. Jhabar Impex Private Limited	170.	009981	M/s. ABN Instruments Private Limited
145.	009579	M/s. Maa Shakambari Ispat Private Limited	171.	012083	M/s. Dorabji Auto Private Limited
146.	011349	M/s. Prodoc Developers Private Limited	172.	005198	M/s. The Janvest Plantation Limited
147.	006286	M/s. The Great Bihar Finance Company Private Limited	173.	0010247	M/s. Eureka Network Marketing Private Limited
148.	010576	M/s. Barira Marketing Private Limited	174.	005327	M/s. Jyoti Retreads Private Limited
149.	001734	M/s. Bihar Computer & Consultancy Services Private Limited	175.	001485	M/s. Goodgrip Tools Private Limited
150.	008791	M/s. Gayatri Architech & Engineers Private Limited	176.	010394	M/s. Bharti and Sons Construction Private Limited
151.	010120	M/s. Bhuwaneshwari Homes Private Limited	177.	007358	M/s. Virasat Films & Television Private Limited
152.	009539	M/s. Linnet Healthcare Private Limited	178.	005947	M/s. Santushti Sales Private Limited
153.	012435	M/s. Santosh Kumar Chaubey Engineering Private Limited	179.	010481	M/s. Gouri Motors and Services Private Limited
154.	009525	M/s. Compu Zone Technology Private Limited	180.	010323	M/s. Reliable Spare Parts Marketing Private Limited
155.	006733	M/s. Sunway India Finance Private Limited	181.	010397	M/s. Om Shri Durga Auto Centre and Services Private Limited
156.	008692	M/s. Anurag Grain Products Private Limited	182.	007689	M/s. Keshri Plastics Private Limited
157.	005134	M/s. DJ Steel Processors & Traders Private Limited	183.	008937	M/s. Hemlata Agencies Private Limited
158.	010535	M/s. Kaveri Education Private Limited	184.	011416	M/s. Oxford Food and Beveragés Private Limited
159.	007178	M/s. Cobra Intelligence Security Force Private Limited	185.	003016	M/s. Utility Sales & Service Private Limited
160.	006869	M/s. Larvi Komputronics Private Limited	186.	010324	M/s. Vertex Infrastructure Private Limited
161.	008888	M/s. Cito & Primo Chemical Industry Limited	187.	005535	M/s. Lomas Plantations Private Limited
162.	009598	M/s. Partech Education Private Limited	188.	002436	M/s. Janta Hotels Private Limited
163.	008765	M/s. Maa Janki Films Private Limited	189.	010348	M/s. Anpurna Sales Private Limited
164.	001566	M/s. Pioneer Properties Private Limited	190.	006758	M/s. Vibhra Impex Private Limited
165.	001399	M/s. Ashiana Engineers Private Limited	191.	007011	M/s. Hattashati Finance Private Limited
166.	011329	M/s. Tripti Career Guidance Private Limited	192.	005203	M/s. Anon Leasing & Finance Services Private Limited
			193.	010628	M/s. Tripti MacLife Marketing Private Limited

1	2	3
194.	003509	M/s. Lok-Astha Enterprises (India) Private Limited
195.	010553	M/s. Gangotri Education Private Limited
196.	007122	M/s. Siddharth Leasing & Finance Company Private Limited
197.	010423	M/s. Aman Auto Centre and Services Private Limited
198.	001500	M/s. Nishant Housing Development Private Limited
199.	008893	M/s. Shamsuzoha Constructions Private Limited
200.	010745	M/s. Madhu Gore Cold Storage Private Limited
201.	001664	M/s. Igno Sediments Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kochi, the 7th January 2011

No. Notice u/s./560(5)/EES-2010/1056/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	2448	M/s. East India Sales and Agencies Private Limited
2.	2636	M/s. Peoples Financiers and Money Lenders Private Limited
3.	3591	M/s. Super Smithy Industries Private Limited
4.	3616	M/s. Builders Choice Private Limited
5.	3827	M/s. Laxmi Securities and Advisors Private Limited
6.	4071	M/s. Micron Home Appliances Private Limited
7.	4606	M/s. Intact Investments Company India Limited
8.	6882	M/s. Bhima Builders Private Limited

1	2	3
9.	7597	M/s. Rotomech Engineers Private Limited
10.	8300	M/s. First Choice Constructions Private Limited
11.	8556	M/s. Hind Agro Plantation and Farms India Private Limited
12.	8973	M/s. A One Chit Funds and Investments Private Limited
13.	9241	M/s. Kairali Couriers Private Limited
14.	9441	M/s. Paisons Equipments and Agencies Private Limited
15.	9490	M/s. Vadavuparambil Chits and Finance Private Limited
16.	9733	M/s. Gurudev Printers Private Limited
17.	9927	M/s. Impress Tech Private Limited
18.	10210	M/s. Sreepadam Builders and Investors Private Limited
19.	10445	M/s. B and T Fashions Private Limited
20.	10636	M/s. Chaste Hospitalities Private Limited
21.	11830	M/s. Aswathy Enterprises Private Limited
22.	11967	M/s. Orbit Educational and Research Foundation Private Limited
23.	12101	M/s. Nectar Systems Private Limited
24.	12846	M/s. The Design Communications Private Limited
25.	14051	M/s. Choorakkat Kuries Private Limited
26.	14098	M/s. Cybernetic Infosystems and Training Private Limited
27.	14353	M/s. Sasthakripa Pack Private Limited
28.	14929	M/s. Standard IT Education Private Limited
29.	15209	M/s. Thaikkattussery Bus Company Limited
30.	15325	M/s. Brothers Infotech Private Limited
31.	15910	M/s. Manorajyam Health Care Private Limited
32.	16308	M/s. Madatheril Constructions Limited
33.	16313	M/s. Star Cene Arts Private Limited
34.	17653	M/s. Abbas Cashew Company Private Limited
35.	18695	M/s. Treezone Consulting Private Limited
36.	19537	M/s. Al-Olayan Consultancy and BPO Services Private Limited

1	2	3
37.	19876	M/s. Onenet Team Marketing Private Limited
38.	20781	M/s. Clifford Holidays Private Limited
39.	21335	M/s. Sebone Infotech Private Limited

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Landmark Civil Works Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 44992/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Landmark Civil Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elind Connectivity Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 24887/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elind Connectivity Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. L & M Tradelinks Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 65849/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. L & M Tradelinks Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ICC Consultancy Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 64010/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ICC Consultancy Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sri Swarnambigai Engineering Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 69159/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Swarnambigai Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gear Transmissions Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 07548/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gear Transmissions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. JM Equipment & Machinery Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 31503/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. JM Equipment & Machinery Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. K. M. System Controls Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00219—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. K. M. System Controls Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Princess of Hills Resorts (Kodai) Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00179—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Princess of Hills Resorts (Kodai) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hongkong Huaren Technology India Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00161—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hongkong Huaren Technology India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tespa Mini Machines Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00173—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tespa

Mini Machines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sabco Building Materials Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00158—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sabco Building Materials Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Octagon Information Systems Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00235—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Octagon Information Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tamilnadu State Farms Corpn Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00151—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tamilnadu State Farms Corpn Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krithika Benefit Fund Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00291—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krithika Benefit Fund Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sugoi Fumitures (India) Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00294—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sugoi Fumitures (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Temenos Application Services Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00300—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Temenos Application Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poh Huat Furniture India Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00297—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of

three months from the date hereof the name of M/s. Poh Huat Furniture India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SMS Aqua Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00303—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. SMS Aqua Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Selaiyur Benefit Fund Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00306—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Selaiyur Benefit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seasky Logistics Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00309—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Seasky Logistics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sreshtha Ghar Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00284—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Sreshtha
Ghar Private Limited unless cause is shown to the contrary,
will be struck off the Register and the said company will be
dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MGM India Benefit Fund Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 26454/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant
to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. MGM India Benefit Fund Limited has
this day been struck off the register and the said company
is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. RSG Engineering & Construction Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 18323/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant
to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. RSG Engineering & Construction
Private Limited has this day been struck off the register and
the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Decisionvantage Consulting Services Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 68607/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant
to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. Decisionvantage Consulting Services
Private Limited has this day been struck off the register and
the said company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. G. M. Agro Farm Private Limited

Chennai-600034, the 24th January 2011

No. 24320/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant
to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that the name of M/s. M. G. M. Agro Farm Private Limited
has this day been struck off the register and the said
company is dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aquamarine Maritime Services Private Limited

Chennai-600034, the 25th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00454—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of
M/s. Aquamarine Maritime Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the Register
and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ADCL Drugs and Chemicals Limited

Chennai-600034, the 25th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00440—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. ADCL
Drugs and Chemicals Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the Register and the said company
will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arun Constructions Private Limited

Chennai-600034, the 25th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00520—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Arun
Constructions Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the Register and the said company
will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Maithri Investments Private Limited

Chennai-600034, the 25th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00445—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Aditya
Maithri Investments Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the Register and the said
company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ariston Hospitality Holdings & Advisory Private
Limited

Chennai-600034, the 25th January 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00480—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Ariston
Hospitality Holdings & Advisory Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the Register
and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands